



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 320 राँची, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019 (ई०)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2019/चैत्र 26, 1941 (शक)

का.आ.____(अ).-- सोलहवीं लोक सभा की अवधि के अवसान पर, नई लोक सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित हैं, से उक्त अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हैं:--

| राज्य | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र |
|-------------|-------------------------|
| (1) | (2) |
| बिहार | 1-वाल्मीकिनगर |
| | 2-पश्चिम चम्पारण |
| | 3-पूर्वी चम्पारण |
| | 4-शिवहर |
| | 16-वैशाली |
| | 17-गोपालगंज (अ.जा.) |
| | 18-सिवान |
| | 19-महराजगंज |
| हरियाणा | 1-अम्बाला (अ.जा.) |
| | 2-कुरुक्षेत्र |
| | 3-सिरसा (अ.जा.) |
| | 4-हिसार |
| | 5-करनाल |
| | 6-सोनीपत |
| | 7-रोहतक |
| | 8-भिवानी-महेन्द्रगढ़ |
| | 9-गुड़गांव |
| | 10-फरीदाबाद |
| झारखंड | 6-गिरिडीह |
| | 7-धनबाद |
| | 9-जमशेदपुर |
| | 10-सिंहभूम (अ.ज.जा.) |
| मध्य प्रदेश | 1-मुरैना |
| | 2-भिण्ड (अ.जा.) |
| | 3-ग्वालियर |
| | 4-गुना |
| | 5-सागर |
| | 18-विदिशा |
| | 19-भोपाल |
| | 20-राजगढ़ |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| उत्तर प्रदेश | 38-सुल्तानपुर |
| | 39-प्रतापगढ़ |
| | 51-फूलपुर |
| | 52-इलाहाबाद |
| | 55-अम्बेडकरनगर |
| | 58-श्रावस्ती |
| | 60-डुमरियागंज |
| | 61-बस्ती |
| | 62-संत कबीर नगर |
| | 68-लालगंज (अ.जा.) |
| | 69-आजमगढ़ |
| | 73-जौनपुर |
| | 74-मछलीशहर (अ.जा.) |
| | 78-भदोही |
| पश्चिम बंगाल | 30-तामलुक |
| | 31-कांथी |
| | 32-घाटल |
| | 33-झाडग्राम (अ.ज.जा.) |
| | 34-मेदीनिपुर |
| | 35-पुरुलिया |
| | 36-बंकुरा |
| | 37-बिशनुपुर (अ.जा.) |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1-चांदनी चौक |
| | 2-उत्तर पूर्व दिल्ली |
| | 3-पूर्व दिल्ली |
| | 4-नई दिल्ली |
| | 5-उत्तर पश्चिमी दिल्ली (अ.जा.) |
| | 6-पश्चिम दिल्ली |
| | 7-दक्षिण दिल्ली |

[फा०सं० एच-11024(1)/2019-वि० 2],

डा० रीटा वशिष्ट,
अपर सचिव, भारत सरकार ।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2019/26 चैत्र, 1941 (शक)

संख्या- 464/ईपीएस/2019(6) --यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में 16 अप्रैल, 2019 (मंगलवार) में प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. **अतः, अब,** उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित **निर्धारित** करता है:

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - **23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)**

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - **24 अप्रैल, 2019 (बुधवार)**

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - **26 अप्रैल, 2019 (शुक्रवार)**

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त **अनुसूची** के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा - **27 मई, 2019 (सोमवार); और**

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

अनुसूची
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय
चरण-VI

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट | मतदान की तारीख | मतदान का समय |
|-------------------------|--|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| बिहार | 1- वाल्मीकि नगर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | | |
| | 1- वाल्मीकि नगर वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 2- रामनगर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 3-नरकटियागंज वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 4- बगहा वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 5- लौरिया वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 9- सिकटा वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 2- पश्चिम चम्पारण | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 3- पूर्वी चम्पारण | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 4- शिवहर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 16-वैशाली | | |
| | 90- मीनापुर वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 97- पारू वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019

| | | | |
|----------------|--|----------------------|--|
| | 98- साहेबगंज वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 95- कांटी वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 96- बरुराज वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 125- वैशाली वि.स.नि.क्षे. | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 17-गोपालगंज (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 18- सिवान | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 19-महराजगंज | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | | | |
| हरियाणा | 1-अम्बाला (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 2-कुरुक्षेत्र | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 3-सिरसा (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 4-हिसार | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 5-करनाल | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 6-सोनीपत | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 7-रोहतक | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 8-भिवानी-महेंद्रगढ़ | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 9-गुड़गांव | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 10-फरीदाबाद | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | |
| झारखंड | 6-गिरिडीह | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 7-धनबाद | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 9-जमशेदपुर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | 10-सिंहभूम (अ.ज.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक |
| | | | |
| मध्य प्रदेश | 1-मुरैना | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 2-भिण्ड (अ.जा) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 3-ग्वालियर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 4-गुना | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 5-सागर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 18-विदिशा | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 19-भोपाल | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 20-राजगढ़ | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | | | |
| उत्तर प्रदेश | 38-सुल्तानपुर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 39-प्रतापगढ़ | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 51-फूलपुर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 52-इलाहाबाद | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 55-अम्बेडकरनगर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019

| | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|--|
| | 58-श्रावस्ती | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 60-डुमरियागंज | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 61-बस्ती | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 62-संत कबीर नगर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 68-लालगंज (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 69-आज़मगढ़ | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 73-जौनपुर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 74-मछलीशहर (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 78-भदोही | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | | | |
| पश्चिम बंगाल | 30-तामलुक | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 31-कांथी | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 32-घाटल | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 33-झाडग्राम (अ.ज.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 34-मेदीनिपुर | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 35-पुरुलिया | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 36-बंकुरा | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 37-बिशनुपुर (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1- चाँदनी-चौक | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 2- उत्तर-पूर्व दिल्ली | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 3- पूर्व दिल्ली | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 4-नई दिल्ली | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 5-उत्तर-पश्चिमी दिल्ली (अ.जा.) | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 6-पश्चिम दिल्ली | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |
| | 7-दक्षिण दिल्ली | 12 मई, 2019 (रविवार) | पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक |

आदेश से,

सुमित मुखर्जी,
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एल० खियांगते)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION

the 16th April, 2019/Chaitra 26, 1941 (SAKA).

S.O. (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Sixteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union Territory, as the case may be, of Bihar, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal and NCT of Delhi as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

| STATE (1) | PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2) |
|----------------------------|---|
| BIHAR | 1-Valmiki Nagar |
| | 2-Paschim Champaran |
| | 3-Purvi Champaran |
| | 4-Sheohar |
| | 16-Vaishali |
| | 17-Gopalganj (SC) |
| | 18-Siwan |
| | 19-Maharajganj |
| HARYANA | 1-Ambala (SC) |
| | 2-Kurukshetra |
| | 3-Sirsa (SC) |
| | 4-Hisar |
| | 5-Karnal |
| | 6-Sonapat |
| | 7-Rohtak |
| | 8-Bhiwani-Mahendragarh |
| | 9-Gurgaon |
| | 10-Faridabad |
| JHARKHAND | 6-Giridih |
| | 7-Dhanbad |
| | 9-Jamshedpur |
| | 10-Singhbhum (ST) |

| | |
|----------------|-------------------------|
| MADHYA PRADESH | 1-Morena |
| | 2-Bhind (SC) |
| | 3-Gwalior |
| | 4-Guna |
| | 5-Sagar |
| | 18-Vidisha |
| | 19-Bhopal |
| | 20-Rajgarh |
| UTTAR PRADESH | 38-Sultanpur |
| | 39-Pratapgarh |
| | 51-Phulpur |
| | 52-Allahabad |
| | 55-Ambedkar Nagar |
| | 58-Shrawasti |
| | 60-Domariyaganj |
| | 61-Basti |
| | 62-Sant Kabir Nagar |
| | 68-Lalganj (SC) |
| | 69-Azamgarh |
| | 73-Jaunpur |
| | 74-Machhlishahr (SC) |
| | 78-Bhadohi |
| WEST BENGAL | 30-Tamluk |
| | 31-Kanthi |
| | 32-Ghatal |
| | 33-Jhargram (ST) |
| | 34-Medinipur |
| | 35-Purulia |
| | 36-Bankura |
| | 37-Bishnupur (SC) |
| NCT OF DELHI | 1-Chandni Chowk |
| | 2-North East Delhi |
| | 3-East Delhi |
| | 4-New Delhi |
| | 5-North West Delhi (SC) |
| | 6-West Delhi |
| | 7-South Delhi |

[F. No. H-11024(1)/2019-Leg.II]

Dr. Reeta Vasishta,
Additional Secretary to the Government of India.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION**the 16th April, 2019/26 Chaitra, 1941(Saka)**

No. 464/EPS/2019(6)-- WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 16th April, 2019 (Tuesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) Appoints, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,-

- (a) **the 23rd April, 2019 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- (b) **the 24th April, 2019 (Wednesday)**, as the date for scrutiny of nominations;
- (c) **the 26th April, 2019 (Friday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the date specified in column (3) of the SCHEDULE below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
- (e) **the 27th May, 2019 (Monday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and

(B) Fixes the hours specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE
Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll
PHASE-VI

| State/Union Territory | Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment | Date of Poll | Hours of Poll |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| BIHAR | 1-Valmiki Nagar PC | | |
| | 1-Valmiki Nagar AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 2-Ramnagar (SC) AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 3-Narkatiaganj AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 4-Bagaha AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 5-Lauriya AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 9-Sikta AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 2-Paschim Champaran | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 3-Purvi Champaran | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 4-Sheohar | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 16-Vaishali PC | | |
| | 90-Minapur AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 97-Paroo AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 98-Sahebganj AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 95-Kanti AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 96-Baruraj AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 125-Vaishali AC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 17-Gopalganj (SC) PC | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 18-Siwan | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 19-Maharajganj | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| HARYANA | 1-Ambala (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 2-Kurukshetra | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 3-Sirsa (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 4-Hisar | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 5-Karnal | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 6-Sonipat | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 7-Rohtak | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 8-Bhiwani-Mahendragarh | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 9-Gurgaon | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 10-Faridabad | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| JHARKHAND | 6-Giridih | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 7-Dhanbad | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 9-Jamshedpur | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| | 10-Singhbhum (ST) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 04:00 PM |
| MADHYA PRADESH | 01-Morena | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 02- Bhind (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 03-Gwalior | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 04-Guna | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 05-Sagar | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 18-Vidisha | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 19-Bhopal | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 20-Rajgarh | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | | | |
| UTTAR PRADESH | 38-Sultanpur | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 39-Pratapgarh | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 51-Phulpur | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 52-Allahabad | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 55-Ambedkar Nagar | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 58-Shrawasti | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 60-Domariyaganj | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 61-Basti | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 62-Sant Kabir Nagar | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 68-Lalganj (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 69-Azamgarh | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 73-Jaunpur | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 74-Machhlishahr (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 78-Bhadohi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | | | |
| WEST BENGAL | 30-Tamluk | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 31-Kanthi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 32-Ghatal | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 33-Jhargram (ST) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 34-Medinipur | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 35-Purulia | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 36-Bankura | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 37-Bishnupur (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | | | |
| NCT OF DELHI | 1- Chandni Chowk | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 2- North East Delhi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 3-East Delhi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 4-New Delhi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 5-North West Delhi (SC) | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 6-West Delhi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |
| | 7-South Delhi | 12th May, 2019 (Sunday) | 07:00 AM to 06:00 PM |

By order,

(Sumit Mukherjee)

Principal Secretary to the
Election Commission of India.
